

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर 2024—आश्विन 3, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2024

क्र. एफ 5-1-2021-एक (1)-1635.—माननीय न्यायाधिपति श्री सुरेश कुमार कैत, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय जिनकी नियुक्ति भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय मंत्रालय) की अधिसूचना क्रमांक K-13025-01-2024-US.II, दिनांक 21 सितम्बर 2024 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति पद पर की गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 25 सितम्बर, 2024 (पूर्वाह्न 11.00) को ग्रहण किया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय कटेशरिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2024

क्र. एफ 5-1-2021-एक (1)-1636.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खण्ड (1) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-2021-एक (1)-1635, दिनांक 25 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय कटेशरिया, उपसचिव.

Bhopal, the 25<sup>th</sup> September 2024

F. 5-1-2021-One(1)-1635.— Hon'ble Justice of Delhi High Court Shri Justice Suresh Kumar Kait, who has been appointed as Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court *vide* Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Justice) Notification No. K-13025-01-2024-US.II, dated 21<sup>st</sup> September, 2024 has assumed the charge of his office on 25<sup>th</sup> September, 2024 (at 11.00 A. M.).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY KATESARIA, Dy. Secy.